

November 01, 2023

The Manager Corporate Relationship Department BSE Limited Floor 25, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai – 400 001

BSE Scrip Code- 533267

Fax No.: 022-2272 3121/1278/1557/3354

The Manager Listing Department National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex Bandra (East) Mumbai - 400 051

NSE Scrip Symbol: CANTABIL and Series: EQ Fax No.: 022-26598237/38

<u>Sub: Newspaper advertisement (s)</u> <u>Ref: Financial Results for the Quarter and Half year ended on September 30, 2023</u>

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached the copy of newspaper advertisement of Financial Results of the Company for the Quarter and Half year ended on September 30, 2023, published in Business Standard on November 1, 2023.

You are requested to take the above on record.

For Cantabil Retail India Limited

POONAM CHAHAL

Digitally signed by POONAM CHAHAL DN: c=IN, o=Personal, pseudonym=car4zaqRSUV2Hkgd0tiYP7PL9iupaNV, 2.5.4.20-oc.18.a3d106adf0e7576f0e12855599059258 b8957b4cf1040fc552e447e81b0c, psetal620e110085, st=Delhi, serialNumber=10c4ba7bddcb340578d76cf631cd10f 18e22c133adf78cf5a6dcb6fe3bf2a53d, cn=POONAM CHAHAL Date: 2023.1101 1102:51 40530'

Poonam Chahal Company Secretary & Compliance Officer FCS No. 9872 *Encl: as above*

CANTABIL RETAIL INDIA LTD.

Road accident fatalities hit all-time high last yr

No. of mishaps rose 12% in 2022; these caused 168,491 deaths, says govt report

DHRUVAKSH SAHA New Delhi, 31 October

R oad accidents continue to show an alarming rise in India despite record government investments in infrastructure, with 2022 witnessing over 460,000 mishaps that resulted in the loss of 168,491 lives — an all time high.

According to the Ministry of Road Transport and Highways' annual report on road accidents released on Tuesday, the states and Union Territories (UTs) reported 461,312 incidents in 2022, which caused injuries to 443,366 people. The year marked an increase of 11.9 per cent in accidents, 9.4 per cent in fatalities, and 15.3 per cent in injuries compared to 2021.

"The report underscores the urgency of adopting a comprehensive approach to address the contributing factors to these accidents, including speeding, reckless driving, drunken driving, and non-compliance with traffic regulations. It is crucial that we strengthen enforcement mechanisms, enhance driver education and training programmes, and invest in improving the condition of roads and vehicles," the highways ministry said in a statement.

The matter has also brought attention to India's rising fatality ratio in such accidents. Twelve calendar years have recorded more road accidents than 2022, yet the latter saw more fatalities than ever. The second-highest number of deaths took place in 2019 - 10,000 fewer than 2022.

While deaths with respect to the number of vehicle registrations have reduced over the past decades, 2022 also saw the highest number of deaths vis-à-vis Indian population, with 12.2 casualties per one lakh people.

There has been little improvement in road safety metrics despite several interventions at the state and central levels. This has also been a thorn in the side of Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari.


The annual report is based on data sent by police departments of states/UTs in formats as provided by the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific under the Asia Pacific Road Accident Database project.

It serves as the primary source for international monitoring of road safety parameters, where India ranks among the worst performing countries. India accounts for



MEAN STREETS Road accidents in the past 5 years

■Accidents ■Fatalities (in numbers) (Figures in brackets are YoY chg in %)



the highest number of road accident deaths in the world, although mishaps in the US are almost six times more than in India.

According to the report, 33 per cent of all road accidents and 35 per cent of fatal accidents took place on national highways and expressways. This is despite record investments in improving highway infrastructure. In FY24, the highways ministry has been provided the highest allocation from the Union Budget – ₹2.7 trillion.


In 2022, 106,682 accidents, which constitute 23 per cent of the total, took place on state highways and the remaining 202,633 (43.9 per cent) on other roads. In fatalities, national highways accounted for 36.2 per cent of the total, while state high-

ways and other roads accounted for 24.3 per cent and 39.4 per cent.

The report also found that a large number of accidents remain attributable to human errors. In 2022, over speeding was a major cause, accounting for 71.2 per cent of the persons killed. It was followed by driving on the wrong side (54 per cent).

Besides the human cost of the accidents, experts and the Centre alike have talked about their economic cost. In a continuing trend, most victims of these accidents are young. Adults in the age group of 18 to 45 years made up 66.5 per cent of the victims in 2022 while those aged 18 to 60 years (working population) comprised 83.4 per cent of the overall fatalities.

Standalone



Get the answers in today's episode



下 businessstandard 🚿 bsindia 👩 business.standard

Business Standard MORNING SHOW

Should you subscribe to

the Mamaearth IPO?

Mon - Fri | 8am

business-standard.com



CANTABIL RETAIL INDIA LIMITED

Regd. Office: B-16, Lawrence Road Industrial Area, Delhi - 110035 CIN: L74899DL1989PLC034995 Web-site: www.cantabilinternational.com Tel : 91-11-41414188, Email : info@cantabilinternational.com

(₹ In Lakhs)

STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2023 5 STANDALONE STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES AS AT SEPTEMBER 30, 2023 (₹ In Lakhs) Particulars As at September 30, 2023 (Unaudited) (Audited)

		Quarter Ended			Half Year Ended		Year Ended
	Particulars	September 30, 2023	June 30, 2023	September 30, 2022	September 30, 2023	September 30, 2022	March 31, 2023
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
А	Revenue from operations	13,511.07	11,176.67	11,599.74	24,687.74	21,676.54	55,171.52
В	Other Income	58.21	114.11	78.98	172.32	168.52	440.98
1	Total Income from Operations (A+B)	13,569.28	11,290.78	11,678.72	24,860.06	21,845.06	55,612.50
2	Net Profit for the period (before tax, Exceptional and Extraordinary items)	880.38	1,524.05	1,247.13	2,404.43	3,114.15	8,927.43
3	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and Extraordinary items)	880.38	1,524.05	1,247.13	2,404.43	3,114.15	8,927.43
4	Net Profit for the period (after Tax, Exceptional and Extraordinary items)	749.68	1,227.14	927.83	1,976.82	2,340.25	6,723.63
5	Total Comprehensive Income for the period (after tax)	779.50	1,219.50	916.63	1,999.00	2,330.01	6,699.90
6	Equity share capital (Face Value of Rs. 10/- each)	1,632.76	1,632.76	1,632.76	1,632.76	1,632.76	1,632.76
7	Reserves excluding revaluation reserves						20,503.67
8	Earnings Per Share (EPS) in ₹ (Not Annualized)						
	(a) Basic	4.59	7.52	5.68	12.11	14.33	41.18
	(b) Diluted	4.59	7.52	5.68	12.11	14.33	41.18

Notes:

1 The above is an extract of the detailed format of quarter and six months ended September 30, 2023. Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter ended are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com & www.nseindia.com) and on the Company's website www.cantabilinternational.com and also use the following link

NSE- https://www.nseindia.com/get-quotes/equity?symbol=CANTABIL

BSE- https://www.bseindia.com/stock-share-price/cantabil-retail-india-ltd/cantabil/533267/financials-results/

Company Website- http://www.cantabilinternational.com/investor_annual&quarterlyresult.html

- 2 These results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (referred to as "Ind AS") 34 Interim Financial Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules as amended from time to time.
- 3 The Company is primarily engaged in the business of "Retail" which constitutes a single reporting segment and the Executive Management Committee does not monitors the operating results of its business units separately for the purpose of making decisions about resource allocation and performance assessment. Segment performance is evaluated based on profit or loss and is measured consistently with profit or loss in the financial statements, thus there are no additional disclosures to be provided under Ind AS 108 – "Operating Segments".
- 4 The standalone figures of the quarter ended September 30, 2023 are the balancing figures between unaudited year to date figures up to September 30, 2023 and unaudited year to date figures up to June 30, 2023, being the date of the end of the first quarter of the financial year which were subjected to limited review.

6 The figures of the previous periods (quarter/year) have been regrouped/ rearranged/ reclassified wherever considered necessary.

Assets		
Non-Current Assets		
a) Property, Plant and Equipment	11,029.87	10,305.36
b) Capital Work-in-Progress	2,285.60	1,201.68
c) Investment Property	345.74	348.17
d) Right of Use Asset	23,090.77	21,526.44
e) Other Intangible Assets	139.53	142.87
f) Financial Assets		
(i) Investments	9.93	9.93
(ii) Other Financial Assets	1,400.43	1,249.61
g) Deferred Tax Assets (net)	1,925.58	1,673.91
h) Other Non-Current Assets	807.74	818.47
Total Non Current Assets	41,035.19	37,276.44
Current Assets		
a) Inventories	23,359.66	21,799.97
b) Financial Assets		
(i) Investments	-	0.82
(ii) Trade Receivables	1,446.95	952.71
(iii) Cash & Cash Equivalents	242.64	144.35
(iv) Other Financial Assets	163.47	154.36
c) Current Tax Assets (Net)	568.59	95.91
d) Other Current Assets	926.72	636.86
Total Current Assets	26,708.03	23,784.98
Total Assets	67,743.22	61,061.42
Equity And Liabilities		
Equity		
a) Equity Share Capital	1,632.76	1,632.76
b) Other Equity	22,094.50	20,503.67
Total Equity	23,727.26	22,136.43
Liabilities		
Non- Current Liabilities		
a) Financial Liabilities		
(i) Borrowings	-	-
(ia) Lease Liability	23,477.28	22,392.01
(ii) Other Financial Liabilities	1,319.62	1,272.92
b) Provisions	757.34	591.80
c) Other Non Current Liabilities	745.31	738.47
Total Non Current Liabilities	26,299.55	24,995.20
Current Liabilities		
a) Financial Liabilities		
(i) Borrowings	4,692.03	2,336.68
(ia) Lease Liability	4,352.58	3,884.39
(ii) Trade Payables		
(a) Total Outstanding dues of micro & small enterprises	1,540.12	1,818.50
(b) Total Outstanding dues of creditors other than micro & small enterprises	4,109.46	3,836.69
(iii) Other Financial Liabilities	1,976.00	1,215.13
b) Other Current Liabilities	426.64	395.83
c) Provisions	619.58	442.57
d) Current Tax Liabilities (Net)	-	-
Total Current Liabilities	17,716.41	13,929.79
Total Equity & Liabilities	67,743.22	61,061.42

For Cantabil Retail India Limited Sd/-(Vijay Bansal) Chairman & Managing Director DIN 01110877

Place: New Delhi Date: October 31, 2023

14 आयाम

मीशो देगी 9 दिन का 'अवकाश'

पीरजादा अबरार

-कॉमर्स क्षेत्र की कंपनी मीशो ने अपने कर्मचारियों को खुशमिजाज रखने के लिए लगातार तौंसरी बार सालाना 'रीसेंट और रिचार्ज' अवकाश शुरू किया है। इस पहल के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारी इस साल 11 से 19 नवंबर के बीच 9 दिन की छडी पर रहेंगे। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और अपने मानसिक स्वास्थ्य को वरीयता देने के लिए सभी उपाय करेंगे।

हाल ही में मीशो के 'मेगा ब्लॉकबस्टर सेल' को शानदार सफलता मिली और इससे उत्साहित होकर कंपनी ने अपने कर्मचारियों को यह सौगात दी है। कंपनी ने कहा है कि वह इस बात पर जोर देती है कि कर्मचारियों के सर्वांगीण विकास एवं एवं खुशियों का खास ध्यान रखा जाए। यह छुट्टी कंपनी के सभी कर्मचारियों के लिए होगी । कंपनी में कुल 1,300 लोग काम करते हैं।

मीशो के मुख्य मानव संसाधन अधिकारी आशिष कुमार सिंह ने कहा, 'पिछले कुछ वर्षों के दौरान हमने अनुभव किया है कि रीसेट और रिचार्ज ब्रेक के तौर पर दी गई छुट्टियों से कर्मचारियों को खुश मिजाज रखने में मदद मिली है। दुसरे शब्दों में कहें तो इससे कर्मचारियों पर अच्छा असर देखने को मिला है। हमने यह भी देखा है कि जब भी वे छुट्टी से तरोताजा होकर लौटते हैं तो उनमें एक



कंपनी के कर्मचारी इस साल 11 से 19 नवंबर के बीच 9 दिन की छुट्टी पर रहेंगे

साथ फिर काम में छुट जाते हैं।' कंपनी ने अपने कर्मचारियों को परा समर्थन

देने के लिए पैरेंटल पॉलिसी में भी बदलाव किए हैं। इसके तहत कर्मचारियों को कई तरह के फायदे दिए जाते हैं, जिनमें वित्तीय मदद और शिशु की देखभाल करने वाले कर्मचारियों को 30 सप्ताह की छुट्टियां भी दी जाती हैं। उद्योग जगत में अमुमन इसके लिए

26 सप्ताह का अवकाश दिया जाता है। कंपनी अपने कर्मचारियों को अपरिहार्य परिस्थितियों जैसे स्वास्थ्य संबंधी मद्दे या कछ

अलग उत्साह दिखता है और वह पूरे जोश के अन्य विशेष मामलों में अतिरिक्त छुट्टियों का प्रावधान भी कर रही है। सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में कार्यस्थल पर कर्मचारियों को अक्सर कई तरह की चिंताएं एवं तनाव का शिकार होते देखा गया है। कंपनी ने कहा कि इसे देखते हुए उसने एक अलग उदाहरण पेश किया है ताकि दूसरी कंपनियां भी कर्मचारियों के हितों के अनुकुल नीतियों की शुरुआत कर सके।

सिंह ने कहा, 'हमारा यह मानना है कि कंपनी में एक बेमिसाल कार्य संस्कृति विकसित करने के लिए कर्मचारियों के कार्य

और जीवन में संतुलन स्थापित करना अति आवश्यक है। इसके साथ ही कर्मचारियों को मानसिक तौर पर भी चस्त रखना जरूरी है। हमने अपने कर्मचारियों को उनकी पसंद के हिसाब से समय व्यतीत करने के लिए छुट्टियां मनाने से लेकर सैर सपाटे पर जाने या नए शौक शुरू करने की अनुमति दे रखी है। हमारी तरफ से इसमें कोई रोक-टोक नहीं होती है। इन उपायों से कर्मचारियों का उत्साह निश्चित तौर पर बढा है और इससे हमें भी अपने कर्मचारियों को जोड़े रखने में मदद मिलती है।' रीसेट और रिचार्ज अवकाश मीशो के समग्र वेलनेस प्रोग्राम 'मीकेयर' का हिस्सा है। 'मीकेयर' का उद्देश्य कर्मचारियों को मानसिक, शारीरिक, वित्तीय और सामाजिक तौर पर मजबूत रखना है। इस कार्यक्रम में कई तरह की पहल की गई है जिसमें मीशो प्रीमियर लीग से लेकर कार्यालय में स्वास्थ्य जांच की सविधा आदि आयोजित किए जाते हैं। इसमें मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित सलाह, वित्तीय योजना तैयार करने आदि में कर्मचारियों की

मदद की जाती है। इस पूरी पहल के दौरान मीशो ने लगातार कई तरह के भविष्योन्मुखी कदम उठाए हैं। इनमें असीमित वेलनेस लीव. 30 दिनों का जेंडर रीअसाइनमेंट लीव और पेट एडॉप्शन लीव शामिल हैं। मीशो का कहना है रीसेट और रिचार्ज नीति खशहाल कार्यस्थल तैयार करने के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

मोदी ने माटी का तिलक लगाया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को कर्तव्य पथ पर 'मेरी माटी-मेरा देश' अभियान के तहत देश भर में आयोजित ' अमुत कलश यात्रा' के समापन कार्यक्रम में शामिल हए। इस दौरान उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों से लाई गई मिंट्री को एक विशालकाय अमृत कलश में अर्पित किया और उसका तिलक भी लगाया।राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की ओर से 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' की भावना को प्रतिबिंबित करते हुए विभिन्न हिस्सों की मिट्टी दिल्ली लाई गई है।

प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के दौरान अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का उदघाटन किया और देश के युवाओं के लिए 'मेरा युवा भारत' मंच की शुरुआत भी की। यह कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के समापन समारोह के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित 'मेरी माटी-मेरा देश' अभियान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों और वीरांगनाओं के प्रति एक श्रद्धांजलि है। कार्यक्रम के दौरान वहां मौजूद सभी लोगों ने मिट्टी की पोटली को हाथ में लेकर पिछले स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर

से किए गए 'पंच प्रणों' के आह्वान के अनुरूप भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने, गलामी की मानसिकता को जड से उखाड फेंकने और देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करने की शपथ ली। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित वहां मौजद सभी केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों व



'अमृत कलश यात्रा' का हो गया समापन

नेताओं ने भी यह शपथ ली। 'मेरी माटी-मेरा देश' अभियान में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2,30,000 से अधिक 'शिलापट्ट' निर्मित किए गए हैं और इसके समर्थन में पंच-प्रण को दर्शाने वाली लगभग चार करोड़ सेल्फी सोशल मीडिया पर अपलोड की गई हैं। भाष



फीड के एकीकरण के साथ थ्रेट इंटेल प्लेटफॉर्म प्रदान करने हेतु इच्छुक ओईएम/सेवा प्रदाताओं/सिस्टम इंटीग्रेटर (एसआई) से रुचि की अभिव्यक्ति। कागजात जमा करने की अंतिम तिथि 06/11/2023 है। इच्छुक पार्टियाँ अधिक जानकारी के लिए https://tenders.ongc.co.in देखें।

ऐपल की हैकिंग चेतावनी पर जांच की प्रक्रिया शुरू

होने के लिए कहा है।'

पृष्ठ १ का शेष

माकपा के महासचिव सीताराम येचरी ने अपने आईफोन पर मिली चेतावनी की प्रति संलग्न करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। येचुरी ने अपने पत्र में लिखा, 'यह भारत के संविधान द्वारा अपने सभी नागरिकों को दी गई मौलिक अधिकारों की गारंटी का उल्लंघन है। निगरानी वाला राज्य लोकतंत्र के

सिद्धांतों के खिलाफ है।' केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार इस मुद्दे को लेकर बहुत चिंतित है और उसने इस मुद्दे

की तह तक जाने के लिए जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा, 'मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उन्हें मिले जानकारी भी नहीं है।'

नोटिफिकेशन में उनके आईफोन पर सरकार प्रायोजित हमलों का जिक्र है। हालांकि इस मुद्दे पर ऐपल द्वारा दी गई अधिकांश जानकारी स्पष्ट नहीं है और यह उतनी विशिष्ट मंत्री ने आगे कहा कि ऐपल को

सटीक तथ्य देकर जांच में सहयोग करना चाहिए। वैष्णव ने कहा, 'इस तरह की सूचना और व्यापक स्तर पर लगाई जा रही अटकलों को देखते हुए हमने ऐपल से कथित

सरकार प्रायोजित हमलों के बारे में



र्डमेल का कोई जवाब नहीं दिया है। वास्तविक और सटीक सूचना की डिजिटल रूप में संग्रहित डेटा की मांग के साथ ही इसे जांच में शामिल गोपनीयता को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जा रही है और यह ऐपल ने खबर लिखे जाने तक भारत में चर्चा का विषय भी है। देश बिज़नेस स्टैंडर्ड की ओर से भेजे गए

Standalone

कानून, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 पर सरकार ने इस साल अगस्त में महर लगाई है।

कानून के तहत डेटा उल्लंघन के प्रत्येक मामले के लिए 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना निर्धारित किया गया है और दो बार दंडशुल्क लगाए जाने के मामले के बाद भी कानून का पालन नहीं करने वाली संस्थाओं के काम को रोकने की बात भी है। हालांकि यह अभी तक लाग नहीं किया गया है क्योंकि अभी वे नियम स्पष्ट नहीं हैं जो इसकी

के बहुप्रतीक्षित डेटा गोपनीयता

सटीक प्रक्रिया को तय करें।

कॉर्पोरेट ऋणी सी एंड सी कस्टूक्शस लिमिटे ड

यदि किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो कृपया **श्री नवनीत कुमार गुप्ता** से navneet@ minervaresolutions .com पर संपर्क करने में संकोच न करें।

इच्छुक आवेदक सी एंड सी कंस्टूक्शंस लिमिटेड की वेबसाइट पर https://www.candcinfrastructure.com/ liquidation.php औ <mark>ई--नीलामी वेबसाइट https://ncltauction.auctiontiger.net</mark> पर अपलोड किए गए विस्तृत परिसंपत्ति बिक्री प्रक्रिया ज्ञापन का संदभ कते हैं । लामी बिक्री ई—नीलामी मंच : https://ncltauction.auctiontiger.net के माध्यम से की जाएगी आरक्षित मूल्य नीलामी की दिनांक ईएमडी राशि और जमा बिक्री का तरीका (रू. में) करने की समयसीम और समय परिसंपत्ति ब्लॉक– 1: परिसंपत्ति ब्लॉक–1: विभिन्न 10.30 बजे से रूपये 5 करोड ग्राहकों / प्राधिकरणों के पक्ष में रुपये 143 करोड़ 15 नवंबर, 2023 को या उससे पहले दिनांक 24 बैंकों द्वारा सी एंड सी नवंबर, 2023 कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के लिए की शाम (जीएसटी के (किसी भी ब्लॉक के लिए लागू) कृपया अलावा, टीडीएस ध्यान दें , ब्लॉक 2 केवल तभी प्रभावे

और अन्य लागू क

और शुल्कों)

परिसंपत्ति ब्लॉक–2

रुपये 50 करोड़

(जीएसटी के

अलावा, टीडीएस

और अन्य लाग क

और शुल्कों)

होगा जब ब्लॉक 1 के लिए कोई पात्र

ईओआई नहीं हो। ऐसे मामले में, ब्लॉक

2 के लिए ईओआई को शुरू से शून्य

माना जायेगा और यदि ईएमडी प्राप्त

होती है, तो ब्लॉक 1 के सफल

बोलीदाता से प्रदर्शन बैंक गारंटी प्राप्त

नवनीत कुमार गुप्त

(परिसमापक

होने के बाद वापस कर दिया जाएगा।

(पंजीकृत संख्या IBBI/IPA-001/IP-P00001/2016-2017/10009

ई–नीलामी: सी एंड सी कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड (परिसमापन में)(CIN : L45201DL1996PLC080401)

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत सी एंड सी कंस्टुक्शंस लिमिटेड लाभकारी प्रतिष्ठान के रूप में की बिक्री एलटी **(प्रधान पीठ, नई दिल्ली)** के 07 अक्टूबर, 2022 के आदेश के अनुसार परिसमापन के तहत परिसंपत्तियों के ब्लॉकों के अनुसार सी एंउ

की शाम

05.30 बजे

तक

जारी की गई लाइव बीजी को

पूरी तरह से अपनाने/

अधिग्रहण के साथ कॉर्पोरेट

हणदाता की बिक्री जारी है।

परिसंपत्ति ब्लॉक–2: संपूर्ण

मध्यस्थता पोर्टफोलियो

दिनांक : 31 अक्टूबर, 2023 स्थान : नई दिल्ली

एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड

$\mathbf{\lambda}$	
<u>74</u>	
CANTABIL	
International Clothing	

CANTABIL RETAIL INDIA LIMITED

Regd. Office: B-16, Lawrence Road Industrial Area, Delhi - 110035 CIN: L74899DL1989PLC034995 Web-site: www.cantabilinternational.com Tel: 91-11-41414188, Email: info@cantabilinternational.com

STANDALONE STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES AS AT SEPTEMBER 30, 2023 STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE (₹ In Lakhs) QUARTER AND SIX MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2023 As at March As at September 30, 2023 31, 2023 (₹ In Lakhs) Particulars (Unaudited) (Audited)

	Dertfordere	Quarter Ended			Half Year Ended		Year Ended
	Particulars	September 30, 2023	June 30, 2023	September 30, 2022	September 30, 2023	September 30, 2022	March 31, 2023
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
А	Revenue from operations	13,511.07	11,176.67	11,599.74	24,687.74	21,676.54	55,171.52
В	Other Income	58.21	114.11	78.98	172.32	168.52	440.98
1	Total Income from Operations (A+B)	13,569.28	11,290.78	11,678.72	24,860.06	21,845.06	55,612.50
2	Net Profit for the period (before tax, Exceptional and Extraordinary items)	880.38	1,524.05	1,247.13	2,404.43	3,114.15	8,927.43
3	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and Extraordinary items)	880.38	1,524.05	1,247.13	2,404.43	3,114.15	8,927.43
4	Net Profit for the period (after Tax, Exceptional and Extraordinary items)	749.68	1,227.14	927.83	1,976.82	2,340.25	6,723.63
5	Total Comprehensive Income for the period (after tax)	779.50	1,219.50	916.63	1,999.00	2,330.01	6,699.90
6	Equity share capital (Face Value of Rs. 10/- each)	1,632.76	1,632.76	1,632.76	1,632.76	1,632.76	1,632.76
7	Reserves excluding revaluation reserves						20,503.67
8	Earnings Per Share (EPS) in ₹ (Not Annualized)						
	(a) Basic	4.59	7.52	5.68	12.11	14.33	41.18
	(b) Diluted	4.59	7.52	5.68	12.11	14.33	41.18

Notes:

The above is an extract of the detailed format of quarter and six months ended September 30, 2023. Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter ended are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com & www.nseindia.com) and on the Company's website www.cantabilinternational.com and also use the following link

NSE- https://www.nseindia.com/get-quotes/equity?symbol=CANTABIL

BSE- https://www.bseindia.com/stock-share-price/cantabil-retail-india-ltd/cantabil/533267/financials-results/

Company Website- http://www.cantabilinternational.com/investor_annual&quarterlyresult.html

- These results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (referred to as "Ind AS") 34 Interim Financial 2 Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules as amended from time to time
- The Company is primarily engaged in the business of "Retail" which constitutes a single reporting segment and the Executive Management Committee does not monitors the operating results of its business units separately for the purpose of making decisions about resource allocation and performance assessment. Segment performance is evaluated based on profit or loss and is measured consistently with profit or loss in the financial statements, thus there are no additional disclosures to be provided under Ind AS 108 - "Operating Segments".
- The standalone figures of the quarter ended September 30, 2023 are the balancing figures between unaudited year to date figures upto September 30, 2023 and unaudited year to date figures up to June 30, 2023, being the date of the end of the first quarter of the financial year which were subjected to limited review.

6 The figures of the previous periods (quarter/year) have been regrouped/ rearranged/ reclassified wherever considered necessary.

ASSEIS		
Non-Current Assets		
a) Property, Plant and Equipment	11,029.87	10,305.36
b) Capital Work-in-Progress	2,285.60	1,201.68
c) Investment Property	345.74	348.17
d) Right of Use Asset	23,090.77	21,526.44
e) Other Intangible Assets	139.53	142.87
f) Financial Assets		
(i) Investments	9.93	9.93
(ii) Other Financial Assets	1,400.43	1,249.61
g) Deferred Tax Assets (net)	1,925.58	1,673.91
h) Other Non-Current Assets	807.74	818.47
Total Non Current Assets	41,035.19	37,276.44
Current Assets		
a) Inventories	23,359.66	21,799.97
b) Financial Assets		
(i) Investments	-	0.82
(ii) Trade Receivables	1,446.95	952.71
(iii) Cash & Cash Equivalents	242.64	144.35
(iv) Other Financial Assets	163.47	154.36
c) Current Tax Assets (Net)	568.59	95.91
d) Other Current Assets	926.72	636.86
Total Current Assets	26,708.03	23,784.98
Total Assets	67,743.22	61,061.42
Equity And Liabilities		
Equity		
a) Equity Share Capital	1,632.76	1,632.76
b) Other Equity	22,094.50	20,503.67
Total Equity	23,727.26	22,136.43
Liabilities		
Non- Current Liabilities		
a) Financial Liabilities		
(i) Borrowings	-	-
(ia) Lease Liability	23,477.28	22,392.01
(ii) Other Financial Liabilities	1,319.62	1,272.92
b) Provisions	757.34	591.80
c) Other Non Current Liabilities	745.31	738.47
Total Non Current Liabilities	26,299.55	24,995.20
Current Liabilities		
a) Financial Liabilities		
(i) Borrowings	4,692.03	2,336.68
(ia) Lease Liability	4,352.58	3,884.39
(ii) Trade Payables		
(a) Total Outstanding dues of micro & small enterprises	1,540.12	1,818.50
(b) Total Outstanding dues of creditors other than micro & small enterprises	4,109.46	3,836.69
(iii) Other Financial Liabilities	1,976.00	1,215.13
b) Other Current Liabilities	426.64	395.83
c) Provisions	619.58	442.57
d) Current Tax Liabilities (Net)	-	-
Total Current Liabilities	17,716.41	13,929.79
Total Equity & Liabilities	67,743.22	61,061.42

For Cantabil Retail India Limited (Vijay Bansal) Chairman & Managing Director DIN 01110877

Place: New Delhi Date: October 31, 2023